



BAPPA SRI NARAIN VOCATIONAL POST GRADUATE COLLEGE (KKV)

STATION ROAD, CHARBAGH, LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226001

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

MR. SNEH PRATAP SINGH

HEAD

ASSISTANT PROFESSOR

EMAIL:snehpratapsingh6845@gmail.com

MOB. NO.: 8081170070

DATE: 10-02-2023

आजादी के अमृत महोत्सव के अनुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के बलिदान दिवस पर शचीन्द्र नाथ सान्याल: व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

बी एस एन वी महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा 7 फरवरी को आजादी के अमृत महोत्सव के अनुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के बलिदान दिवस पर शचीन्द्र नाथ सान्याल: व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अशोक दुबे जी के उद्बोधन से हुआ कार्यक्रम के प्रारंभ में सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर शचीन्द्र नाथ सान्याल जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रतियोगिता में कला और विज्ञान संकाय के 17 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। विषय का परिचय विभाग के प्रोफेसर राकेश चंद्र जी के द्वारा किया गया। विद्यार्थियों ने भाषण में सान्याल जी की अनुशीलन समिति, गदर आंदोलन, लॉर्ड हर्डिंग की हत्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य के रूप में भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. स्नेह प्रताप सिंह ने किया सह संचालन डॉ. विपिन सिंह ने तथा समय संचालन डॉ. ऋचा सिंह ने किया निर्णायक की भूमिका का निर्वहन डॉ. ऋचा तिवारी तथा डॉ. मनीषी त्रिवेदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनीषी त्रिवेदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य विभागों के सम्मानित विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापक गण उपस्थित रहे जिसमें

प्रोफेसर डीके गुप्ता, प्रोफेसर एन के अवस्थी, प्रोफेसर अरविंद कुमार तिवारी प्रोफेसर रामकुमार, प्रोफेसर जय शंकर पांडे तथा डा ललित उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।





(HEAD)
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE